



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

1 वैशाख 1932 (श0)
(सं0 पटना 278) पटना, बुधवार, 21 अप्रील 2010

सं० बी०/समा०-02-1008/2010-354

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

संकल्प

30 मार्च 2010

महात्मा ज्योतिराव फुले के सामाजिक एवं शैक्षणिक क्षेत्र में महान योगदान को देखते हुए सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक वर्ष 11 अप्रील को श्री कृष्ण स्मारक भवन, गाँधी मैदान, पटना के परिसर में उनकी जन्म-तिथि को राजकीय समारोह के रूप में आयोजित किया जायेगा।

आदेश:—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र में जनसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

नवीन चन्द्र झा,

सरकार के उप-सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 278-571+200-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>